



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 726 राँची, शुक्रवार,

27 जुलाई, 2018 (ई०)

### राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

.....

आदेश

17 जुलाई 2018

संख्या-03नि0प0-10/2016 रा0नि0आ0 1172.. यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, लातेहार के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड

पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	लातेहार	III लातेहार-01	मधु देवी, ग्राम-बरवाडीह, पंचायत-बरवाडीह, प्रखण्ड-बरवाडीह, जिला-लातेहार	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		III लातेहार-03	मोहन लाल उरांव, ग्राम-धांगरटोला, पं0-धांगरटोली, प्रखण्ड-गारु	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		III लातेहार-03	शिल्पा कुमारी, ग्राम-घांसीटोला, पं0-घांसीटोला, प्रखण्ड-गारु	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		III लातेहार-04	सीमा केरकेटा, ग्राम-अम्बाटोली, पं0-अम्बाटोली, प्रखण्ड-महुआडांड	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		III लातेहार-05	रामेश्वर सिंह, ग्राम-पटना, पंचायत-जान्हो, प्रखण्ड-मनिका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		III लातेहार-06	मरियम तिर्की, ग्राम-डोंकी, पंचायत-डोंकी, प्रखण्ड-मनिका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7		III लातेहार-06	शीला देवी, ग्राम-जुंगुर, पंचायत-जुंगुर, प्रखण्ड-मनिका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8		III लातेहार-08	आर्यन उरांव, ग्राम-लबरपुर, पंचायत-पेशरार, प्रखण्ड-लातेहार	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9		III लातेहार-08	उर्मिला देवी, ग्राम-निन्दीर, पंचायत-डेमु, प्रखण्ड-लातेहार	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
10		III लातेहार-08	जितु उरांव, ग्राम-उलगढ़ा, पंचायत-भुसुरु, प्रखण्ड-लातेहार	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11		III लातेहार-08	बालकिशोर सिंह, ग्राम-डेमु, प्रखण्ड-लातेहार	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

12	III लातेहार-09	निरा देवी, ग्राम-धाधू, पं0-धाधू, प्रखण्ड-बालूमाथ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13	III लातेहार-10	आदित्य प्रजापति, ग्राम-सेरेगढ़ा, पंचायत-सेरेगढ़ा, प्रखण्ड-बालूमाथ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	III लातेहार-10	मो0 कयूम अंसारी, ग्राम-मारंगलोईया, पंचायत-मारंगलोईया, प्रखण्ड-बालूमाथ	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
15	III लातेहार-11	सुनिता देवी, ग्राम-गोनिया, पंचायत-गोनिया, प्रखण्ड-बारियातु	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
16	III लातेहार-12	कुन्ती देवी, ग्राम-होंजर, पंचायत-सलईया प0, प्रखण्ड-हेरहंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
17	III लातेहार-12	खुशु कुमारी, ग्राम-हुम्बु, पंचायत-चिरु, प्रखण्ड-हेरहंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
18	III लातेहार-12	चांदनी साहु, ग्राम-चिरु, पंचायत-चिरु, प्रखण्ड-हेरहंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
19	III लातेहार-12	पुनम बाला, ग्राम-हुम्बु, पंचायत-चिरु, प्रखण्ड-हेरहंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
20	III लातेहार-12	बबीता देवी, ग्राम-हुम्बु, पंचायत-चिरु, प्रखण्ड-हेरहंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
21	III लातेहार-12	लालमनी देवी, ग्राम-बनकीता, पंचायत-तासु, प्रखण्ड-हेरहंज	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22	III लातेहार-13	रामरतन वासपति, ग्राम-चकला, पंचायत-चकला, प्रखण्ड-चन्दवा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
23	III लातेहार-13	ललखु भुइयां, ग्राम पंचायत-सेरक, प्रखण्ड-चन्दवा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
24	III लातेहार-13	लालदेव भुइयां, ग्राम-बारी, पंचायत-बारी, प्रखण्ड-चन्दवा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
25	III लातेहार-13	विनिता देवी, ग्राम-सेरक, पंचायत-सेरक, प्रखण्ड-चन्दवा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

**झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018**

26	III लातेहार-14	अनुज कुमार, ग्राम-हुटाप, पंचायत-हुटाप, प्रखण्ड-चन्दवा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
27	III लातेहार-14	अरसद खान, ग्राम-चन्दवा, पंचायत-चन्दवा पु0, प्रखण्ड-चन्दवा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
28	III लातेहार-14	आशिष कुमार सिंह, ग्राम-रोल, पंचायत-जमीरा, प्रखण्ड-चन्दवा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
29	III लातेहार-14	राधेश्याम साव, ग्राम-हुटाप, पंचायत-हुटाप, प्रखण्ड-चन्दवा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
30	III लातेहार-14	रामरतन सिंह, ग्राम-हुटाप, पंचायत-हुटाप, प्रखण्ड-चन्दवा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
31	III लातेहार-14	सरिता बैक, ग्राम-चन्दवा, पंचायत-चन्दवा पु0, प्रखण्ड-चन्दवा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

**ह०/-(अस्पष्ट),**

उप निर्वाचन आयुक्त,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
झारखण्ड, राँची।

-----